

## जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट संख्या- 04

दिनांक- 17.01.2021

थाना मसौली पुलिस द्वारा अन्तरजनपदीय गिरोह के 06 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का गैस सिलेण्डर, बैटरा, जनरेटर के पाटर्स, साइकिल, 01 अदद तमंचा, 01 अदद कारतूस व 01 अदद चाकू बरामद-

जनपद बाराबंकी में घटित चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आर0एस0 गौतम के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी रामनगर श्री दिनेश कुमार दूबे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मसौली के नेतृत्व में चोरों/लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक-16.01.2021 को मैनुअल इंटेलिजेंस व सर्विलांस के आधार पर 06 शातिर चोर 1- निजाम वारिस पुत्र हुसैन निवासी मो0 कटरा मजरे मसौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी, 2- मो0 मेहरोज पुत्र मो0 शरीफ निवासी मसौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी, 3- मो0 खलील पुत्र अली अहमद निवासी मस्ताननगर थाना मसौली जनपद बाराबंकी, 4- मो0 शरीफ उर्फ बोदे पुत्र ताज मोहम्मद निवासी मस्ताननगर थाना मसौली जनपद बाराबंकी, 5- मो0 आरिफ पुत्र मो0 जलील निवासी मसौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी, 6- मो0 जैद पुत्र अब्दुल रौफ निवासी नालापार दक्षिणी थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को समय 17:10 बजे कस्बा मसौली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से विभिन्न स्थानों पर की गयी चोरी का सामान तीन अदद गैस सिलेण्डर, एक अदद बैट्रा, जनरेटर इंजन के पाटर्स, एक अदद नल का हत्था, 2150/- रुपये नकद, एक अदद चोरी की साइकिल एवं एक अदद चाकू व एक अदद तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसौली पर मु0अ0सं0-13/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व मु0अ0सं0-14/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। यह लोग रात्रि में घूमकर देखते थे और रात्रि में 04 से 05 बजे के बीच जहां मौका मिलता था छोटे-छोटे सामान जैसे- गैस सिलेण्डर, साइकिल, नल का हत्था आदि चोरी कर लेते थे और इनके द्वारा उसे बेचकर मिलने वाले पैसे से अपनी नशे आदि आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि बाराबंकी में विभिन्न स्थानों पर चोरी की घटनाएं कारित की गयी है जिनका विवरण निम्नवत् है-

1- दिनांक 14.01.2021 को वादी श्री मो0 जमीर पुत्र मो0 जमील खाँ निवासी मसौली थाना मसौली बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 11.01.2021 की मसौली चौराहे के निकट भट्टा पर गोदाम का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने गोदाम में घुसकर जनरेटर, लगभग 10 नल के हत्थे, 02 नल की मशीन व दो गैस सिलेण्डर चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध थाना मसौली पर मु0अ0सं0-11/2021 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

2- दिनांक 15.01.2021 को वादी मो0 आमीन पुत्र अब्दुल खालिक निवासी मसौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 14.01.2021 की रात में अज्ञात चोरों

द्वारा मसौली चौराहे पर दुकान का ताला तोड़कर एक गैस सिलेण्डर, एक बैट्री, पान-मसाला व नकदी चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना मसौली पर मु०अ०सं०- 12/2021 धारा 379 भादवि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

#### नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

- 1- निजाम वारिस पुत्र हुसैन निवासी मो० कटरा मजरे मसौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी। (उम्र 30 वर्ष)
- 2- मो० मेहरोज पुत्र मो० शरीफ निवासी मसौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी। (उम्र 28 वर्ष)
- 3- मो० खलील पुत्र अली अहमद निवासी मस्ताननगर थाना मसौली जनपद बाराबंकी। (उम्र 25 वर्ष)
- 4- मो० शरीफ उर्फ बोदे पुत्र ताज मोहम्मद निवासी मस्ताननगर थाना मसौली जनपद बाराबंकी। (उम्र 24 वर्ष)
- 5- मो० आरिफ पुत्र मो० जलील निवासी मसौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी। (उम्र 27 वर्ष, कक्षा-5, कबाड़ का व्यवसाय)
- 6- मो० जैद पुत्र अब्दुल रौफ निवासी नालापार दक्षिणी थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी। (उम्र 20 वर्ष, बी.कॉम-11, कबाड़ का व्यवसाय)

#### बरामदगी-

1. तीन अदद गैस सिलेण्डर
2. एक अदद बैट्री
3. जनरेटर इंजन के पार्ट्स
4. एक अदद नल का हत्था
5. एक अदद साइकिल
6. एक अदद चाकू
7. एक अदद तमंचा 315 बोर मय कारतूस
8. 2150/- रूपये नकद

#### पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विजेन्द्र प्रसाद शर्मा थाना मसौली जनपद बाराबंकी।
2. व०उ०नि० श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना मसौली जनपद बाराबंकी।
3. उ०नि० श्री प्रमोद कुमार पाल थाना मसौली जनपद बाराबंकी।
4. हे०का० रामनरायन सिंह, का० मनोज कुमार यादव थाना मसौली जनपद बाराबंकी।
5. हे०का०चालक फतेहबहादुर वर्मा, का० ज्ञान प्रताप सिंह थाना मसौली जनपद बाराबंकी।